



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28—मई 4, 2012 (वैसाख 8, 1934)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28—MAY 4, 2012 (VAISAKHA 8, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. ए-22012/001/2012-पीएमई(एनएसी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (सेवानिवृत्त) श्री एस. वी. पिल्लै को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष के निजी स्टाफ में रु. 7,600/- ग्रेड पे के साथ पे बैंड-3 में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करती हैं।

2. श्री एस. पी. पिल्लै की नियुक्ति राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्याक्षा के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए-22012/001/2011-पीएमई(एनएसी)--अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप वर्तमान में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एस. वी. पिल्लै दिनांक 31 मार्च, 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए-22012/02/2012-पीएमए--श्रीमती विनी महाजन, आई.ए.एस. (पंजाब : 1987) का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 30 मार्च, 2012 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. आरएस./42/9/2012/27-कार्मिक--श्री गुरविंदर सिंह गुलेरिया, सुरक्षा अधिकारी को 09 अप्रैल, 2012 (अपराह्न) से इस सचिवालय से कार्यमुक्त कर दिया गया है और महिला अधिकारिता संबंधी समिति की अध्यक्ष (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह पदावसान के आधार पर उनकी नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं लोक सभा सचिवालय के सुपुर्द कर दी गई हैं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2012

सं. ए-19014/02/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग के दिनांक 09 फरवरी, 2012 के कार्यालय आदेश सं. 5/16/2011-रा.भा. (सेवा) के तहत केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के श्री ईश्वर सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) को 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में दिनांक 06.03.2012 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय में उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. जे. सिबिचन, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 4 अप्रैल 2012

सं. ए-12011/2/2008-I--नए सृजित पद के तहत, प्रधान निदेशक (केन्द्रीय), लखनऊ में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्री संजय कुमार झा (आईए व एएस-1993), ने अप्रैल 04, 2012 के अपराह्न से निदेशक, अन्तरिक्ष विभाग के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभिरामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2012

सं. एफ. 6(2179)/2012-प्रशा.-I--कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 07/04/2012-ईओ(एसएम-I) दिनांक 30.03.2012 द्वारा सूचित एसीसी अनुमोदन के अनुसरण में श्रीमती सिंधुश्री खुल्लर, आईएएस (एजीएमयूटी-75) ने योजना आयोग में सचिव के रूप में दिनांक 02.04.2012 के पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/39/2012-यू आई डी ए आई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 22 मार्च, 2012 के पत्र सं. ए-12013/21 (ए डी जी-मुम्बई)/9-यू आई डी ए आई और वित्त मंत्रालय (सी बी डी टी) के 2012 के आदेश सं. 62 (फा. सं. ए-29011/पी एफ/90074/2012-प्रशा.-VI दिनांक 29 मार्च, 2012) के अनुसरण में श्रीमती अपर्णा मित्तल (आई आर एस-90) ने दिनांक 30.03.2012 की (पूर्वाह्न) से मुम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड + 8,700/- रुपए के वेतन ग्रेड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरुण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. ए-12034/1/2011-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के श्री गिरि केतराज, संयुक्त निदेशक को दिनांक 13.03.2012 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2012 तक माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) के वैयक्तिक अनुभाग में पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- सहित विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री गिरि केतराज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.05.2009 के का.ज्ञा. सं. 2/23/2008-स्थापना (पे-II) में निहित अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2. श्री गिरि केतराज की नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) के प्रसादपर्यन्त अथवा उपरलिखित अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए है।

आशा सोय, अवर सचिव

कोलकाता-700001, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. जी-19012(1)/2011-प्रशा. कोल.--विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता में उप विधि सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री प्रदीप कुमार साहा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

एस. एस. सरकार, अपर सरकारी अधिवक्ता/का.प्र.

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. 13017/57/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री कर्मा आर. बोनपो, भा.प्र.से. (मणिपुर त्रिपुरा : 10) को उत्तर-पूर्व से संबंधित वर्तमान नीति के तहत मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से सिक्किम संवर्ग में एतद्वारा स्थानांतरित करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. 13017/49/2011-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री पवन कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (म.प्र. : 99) की मध्य प्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में उपायुक्त, दिल्ली नगर निगम के पद पर नियुक्ति हेतु दी गई अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2012

सं. 3/पीबी-II/2012--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 14 मार्च, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/3/2012 के अनुसरण में भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-I में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करती हैं:--

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4
(श्री/श्रीमती)			
1.	महेश कुमार	15.03.1968	02.03.2012
2.	नरेन्द्र कुमार	15.11.1966	02.03.2012
3.	भूपेन्द्र सिंह के.	24.06.1966	02.03.2012
4.	आई. एम. भास्कर	25.01.1957	02.03.2012
5.	अरूण बहुगुणा	02.01.1967	19.03.2012
6.	जे. वी. शेषाद्री शेखर	28.09.1966	02.03.2012
7.	बलराज	13.03.1959	02.03.2012
8.	वी. जयश्री गोपाल	16.10.1964	02.03.2012
9.	अशोक कुमार खोबा	07.08.1963	02.03.2012
10.	विपिन नरूला	12.03.1963	02.03.2012
11.	संगीता भट्ट	21.01.1969	02.03.2012
12.	देविन्दर कुमार	17.11.1964	02.03.2012
13.	एन. मुरलीधरन	11.07.1960	07.03.2012
14.	जीवन धीमन	02.01.1960	02.03.2012
15.	धीरेन्द्र कुमार शुक्ला	02.07.1962	02.03.2012
16.	राजीव कोहली	25.04.1964	02.03.2012
17.	एस. सुंदरचारी	03.03.1958	02.03.2012
18.	रेनतला शेष श्रीनिवास	08.02.1972	02.03.2012
19.	उपेन्द्र सिंह नेगी	16.03.1970	02.03.2012
20.	ए. अंचना कन्नान	02.06.1965	02.03.2012
21.	गिरिजा शंकर जोशी	15.02.1972	02.03.2012
22.	रोमिन्दर सिंह	04.10.1974	02.03.2012
23.	दलीप कुमार गंभीर	21.06.1965	02.03.2012

1	2	3	4
(श्री/श्रीमती)			
24.	रेखा जुयाल	27.08.1971	02.03.2012
25.	अनुपमा देवलाल	01.04.1974	02.03.2012
26.	एस. राजन	02.12.1957	02.03.2012
27.	महेन्द्र प्रकाश बैसला	15.12.1969	02.03.2012
28.	अरूण यादव	28.10.1968	02.03.2012
29.	पी. के. विनोद कुमार	24.05.1959	02.03.2012
30.	प्रेम नाथ खरे	03.05.1964	02.03.2012
31.	पी. आर. प्रताप	13.02.1961	02.03.2012
32.	उपलुरी सिध गोपाल	08.05.1963	02.03.2012
33.	टी. पी. नारायणन	14.08.1967	02.03.2012
34.	पवन कुमार	15.05.1974	02.03.2012
35.	नवल किशोर वत्स	10.01.1958	02.03.2012
36.	आर. के. सेहरावत	15.05.1959	02.03.2012
37.	सीमा सिंह	08.05.1972	02.03.2012
38.	परमानंद साहू	15.04.1967	02.03.2012
39.	पी. सत्यनारायणन	02.05.1969	02.03.2012
40.	ए. रवि	01.06.1960	02.03.2012
41.	विनोद कुमार सागर	26.09.1972	02.03.2012
42.	विश्वरूप सरकार	05.01.1963	02.03.2012
43.	अग्नेश टेप्पो	21.04.1964	02.03.2012
44.	विनोद कुमार	10.04.1970	02.03.2012

2. नियुक्ति की अन्य निबंधन एवं शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-I के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के अनुरूप होगी।

देबब्रत पॉल, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2012

सं. 2012 की 4 (फा. सं. ए-32014/04/2009-प्रशा.-I के) --राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.सं.) श्री मनिन्दर जीत सिंह को राजस्व विभाग में चयन सूची वर्ष 2011 से दिनांक 17 फरवरी, 2012 (पूर्वाह्न) से के. स.आ.से. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (व.प्र.नि.सं.) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2012

सं. 2 (फा.सं. ए-32011/02/2001-प्रशा. VI--ओ ए सं. 30/2011 में माननीय कैट, जोधपुर खंडपीठ, जोधपुर के दिनांक 03.05.2011 के आदेश के अनुपालन में, श्री राम अवतार वर्मा (85072), वर्तमान में आयकर उपायुक्त को एतद्वारा दिनांक 24.10.2000 से 21.04.2009 तक 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान (पूर्व-संशोधित) में प्रवर ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में रखा जाता है।

आनन्द उपाध्याय, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2012

सं. 19011/320/2012-स्थापना--संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2006, 2007 और 2008 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति श्री सुभाष चन्द्र (चयन सूची वर्ष 2008/रैंक सं. 039) को 19 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों के होने तक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुभाष चन्द्र की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालयी मामलों के परिणाम के अधधीन है :--

- (i) श्री सौरांशु सिंह बनाम भारत संघ द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दायर वर्ष 2011 की ओ.ए. सं. 1083/2007, एम.ए. सं. 1171/2007 तथा एम.ए.
- (ii) श्री ए. के. नंदी एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा भारतीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ. ए. सं. 2136/2010
- (iii) श्री विकास त्रिपाठी एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा भारतीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सं. 2469/2010
- (iv) श्री ए. प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ द्वारा भारतीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ. ए. सं. 1253/2009
- (v) श्री प्रदीप कुमार मंडल बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा भारतीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ. ए. सं. 2584/2011 तथा एम.ए. सं. 1987/2011

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

व्यय विभाग

(मुख्य लागत सलाहकार कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 01 दिसम्बर 2011

सं. पीएफ-16(372)/सीएबी/93--व्यय विभाग के कार्यालय आदेश सं. पीएफजी (2341)-प्रशा.-I दिनांक 25.10.2011 के अनुपालन में,

वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की निजी सचिव (तदर्थ) सुश्री शशि बाला सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के प्रावधान के अंतर्गत 01 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होती हैं।

2. उनका नाम इस तारीख से इस कार्यालय और व्यय विभाग की पद संख्या से हटया जाता है।

राजेश कुमार अग्रवाल, सहायक निदेशक (लागत)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. पीएफजी(2389)/प्रशा.-I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के उप-सचिव, श्री एस. कनकम्बरम अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

बिप्लब कुमार रॉय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 02 अप्रैल 2012

सं. 06/2012 (फा.सं. 6/2413/2006/पीईएन/एचआरडी-1/1258)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी (सीएसएस), श्रीमती स्वर्ण कान्ता 31.03.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 03 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/780/2011-स्था.-1--श्री प्रदीप कुमार चौधरी, आईएएस, (हरियाणा : 77) को उनके मूल संवर्ग में वापस भेजने हेतु मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन मिल जाने के फलस्वरूप उन्होंने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में दिनांक 3 अप्रैल, 2012 की अपराह्न से सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. ए-12023/2/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, ग्रामीण विकास विभाग में राजभाषा सेवा के नियमित वरिष्ठ अनुवादक श्री एम. सी. गोयल को वेतन संरचना पीबी-3 (रु. 15,600--39,100/-) + ग्रेड पे 5,400/- रु. में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 03.04.2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए या पद के लिए एक नियमित सहायक निदेशक (राजभाषा) उपलब्ध होने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे अधिकारी को उक्त पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा ग्रेड में

वरिष्ठता अथवा उच्च ग्रेड में पदोन्नति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2012

सं. आई-34011/10/2005-आरटीआई--इस विभाग की दिनांक 06.10.2005 की अधिसूचना सं. एफ-23024/16/2005-ई-III में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आईएसयू अनुभाग से संबंधित समस्त मामलों के लिए श्री जी. आर. जंघू, सहायक निदेशक को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के तौर पर आईएसयू अनुभाग का प्रभार श्री ए. एम. बलराज, वरिष्ठ विकास अधिकारी के नाम से हटा लिया गया है।

एस. एन. मिश्रा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2012

सं. ए-12011/1/2007-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.03.2012 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित अधिकारियों (निजी सचिव) को चयन सूची वर्ष 2010 के लिए 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है :-

क्र. नाम
सं.

1. श्रीमती नीलू नांगिया
2. श्री के. पी. मुरलीधरन
3. श्री के. श्रीनवासन
4. श्री के. एस. एन. राव
5. श्रीमती नीरजा गर्ग
6. श्री वी. के. सुमन

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/2/2012-स्थापना (एनपीपीए)--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए-12016/5/2011-एसएसएस दिनांक 21.02.2012 व 13.03.2012 और उसी मंत्रालय के आदेश सं. ए-20012/12/97-प्रशासन-2 दिनांक 29.02.2012 के अनुसरण में अधिनस्थ सांख्यिकीय सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I के पद पर

पदोन्नति के परिणामस्वरूप श्री राम गोविन्द राम ने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में दिनांक 01.03.2012 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- + 4600/- (ग्रेड पे) की वेतन संरचना में वरिष्ठ अन्वेषक के पद पर विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जगदीश कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 2012

सं. ए-19011/226/2012-प्रशासन--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति के आदेश संख्या 13/5/2012-ईओ(एसएम-I), दिनांक 30 मार्च, 2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री ओम प्रकाश रावत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 77) को दिनांक 03 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में सचिव, लोक उद्यम विभाग के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. ए-12025/24/2010-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सरिता जिलोवा को दिनांक 07 जनवरी, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में विकिरण निदान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. ए-12025/53/2009-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. ऋषि नायर को दिनांक 14 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में मूल विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/2/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. जैनेन्द्र कुमार अरोड़ा को दिनांक 17 फरवरी, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में सर्जरी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/28/2010-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. बाबू लाल चौधरी को दिनांक 25 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-संवर्ग में फॉरेन्सिक मेडिसिन की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. ई-11016/01/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री राम अवतार राम को दिनांक 25.01.2012 से अगले आदेशों तक पीबी-3 (रुपए 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपए ग्रेड पे) के वेतनमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक (रा.भा.) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर है और यह पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित रूप से बने रहने या नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने या वरिष्ठता के लिए दावा करने का हक प्रदान नहीं करेगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19012/01/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, दिनांक 29 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री मनोज झालानी, भा.प्र.से (मध्य प्रदेश : 87) को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

सं. 4-1/2011-विस्तार--राष्ट्रपति विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली में वेतनमान रुपये 15,600--39,100/- (पीबी-3) + ग्रेड पे रुपये 5,400/- में सुश्री पूनम तिवारी को क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री (आरएचई), जीसीएस समूह 'क' राजपत्रित के पद पर सीधी भर्ती के आधार पर 6.3.2012 के पूर्वाह्न से नियुक्त करती हैं।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2012

सं. ए-19012/3/2012-इए--वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के फा. सं. 13016/2/2011-आईईएस के तहत जारी दिनांक 19.01.2012 के आदेश सं. पी-1/2012 के अनुसार राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के एक गैर प्रकाशित चयन ग्रेड के अधिकारी श्री एस. चन्द्रशेखर का आईईएस के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति होने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में पे बैंड-4, 37,400--67,000/- रुपये + 10,000/- रुपये ग्रेड पे में, 5 मार्च, 2012 के पूर्वाह्न से सलाहकार के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 21 मार्च 2012

सं. ए-19012/7/2009-आ.प्र., फा. सं. 11016/1/2012--आईईएस के तहत जारी आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय के आदेश सं. पी-2/2012 दिनांक 7.3.2012 के अनुसरण में राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से पे बैंड-4 रुपए 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700/- रुपए में भारतीय आर्थिक सेवा के गैर प्रकाशित चयन ग्रेड, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	एनएफएसजी दिए जाने की तारीख	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री नारायण सिंह	01.01.2012	01.01.2012
2.	श्री राम वीर सिंह	19.01.2012	19.01.2012
3.	श्री गंगा राम	19.01.2012	19.01.2012
4.	श्री एम. रविंद्र	19.01.2012	19.01.2012

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2012

फा. सं. ए-19012/1/2010-आ.प्र., फा. सं. 11016/1/2012--आईईएस के तहत जारी आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय के आदेश सं. पी-2/2012 दिनांक 7.3.2012 के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्रीमती हरिता सम्भरवाल, संयुक्त निदेशक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को दिनांक 19.1.2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-4 रुपए 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700/- रुपए में निदेशक (एनएफएसजी), भारतीय आर्थिक सेवा के पद पर नियुक्त करती हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. ए-12022/2/2007-स्था. I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.03.2012 के पत्र सं. 4/9/2012-ई.ओ.(एसएम-I) के अनुसरण में, श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, आई.ए.एस. (एम : 81) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में 02.04.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अपर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अत्तम प्रकाश, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. 1/11/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/4/2011-सीएस-II (ए) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 2011 के चयन सूची में स्थान दिए जाने और इस मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तैनाती के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी वैयक्तिक सचिव श्री सुदेश कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (15,600--39,100 रु. एवं ग्रेड वेतन 7,600/- रु.) में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर दिनांक 02 अप्रैल, 2012 (पूर्वा.) से नियुक्त करती हैं।

मोहम्मद अफजल, निदेशक (प्रशा.)

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 मार्च 2012

सं. 2(4)/2011-पी ए (टी ए)--राष्ट्रपति महोदया के द्वारा श्री रामेन्द्रनाथ रायचौधरी, अधीक्षक, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, को पीबी 2 के रु. 9,300--34,800+ ग्रेड वेतन 4,600/- के वेतनमान में दिनांक 26/03/2012 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 2 के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. ई.(जी.पी.) 2008/3/12--राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेल के हिन्दी विभाग के निम्नलिखित 4 ग्रुप-बी राजभाषा अधिकारियों को दिनांक 06.02.2012 से ग्रुप 'ए' के वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

2007-08 के लिए पैनल

क्र. सं. सर्व/श्री

श्री प्रेमचन्द डांग (अ.ज.जा.)
(दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत)

2009-10 के लिए पैनल

- परिवन्दर सिंह रावत
(उत्तर रेलवे में कार्यरत)
- रेवती लाल मीना (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित
(उत्तर पश्चिम रेलवे में कार्यरत) पद पर पदोन्नति)

2010-11 के लिए पैनल

विवेन्द्र सिंह (अ.जा.) (अ.जा. के आरक्षित
(उत्तर रेलवे में कार्यरत) पद पर पदोन्नति)
वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 2012

सं. ए-38020/2/2012-स्था. II--सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) वर्ग 'क' के श्री मूल चंद, मुख्य अभियन्ता (सिविल) का दिनांक 07.03.2012 को निधन हो गया है।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2012

सं. 14/2012. फा. सं. 12/19/2011-प्रशा. II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री कमल बोस, अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय

31 मार्च, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2012

सं. 7/2012-मि.सं.ए-38012/1/2012-प्रशा.एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री परवेश कुमार जोकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 मार्च, 2012 को निवृत्त हो गए हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2012

सं. 4/2012 फाइल सं. 3/4/2011-स्थापना-1--राष्ट्रपति, केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ टाइम स्केल अधिकारियों (सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता) को, उनके नाम के आगे दर्शाई तारीख से उसी सेवा में, (पूर्व संशोधित) वेतनमान रुपए 10,000-325-15,200/- (संशोधित वेतनमान रुपए 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रुपए 6,600/-) में नियमित रूप से पदोन्नति पर वरिष्ठ टाइम स्केल (उप. निदेशक/अधिशासी अभियंता) के पद पर नियुक्त करती हैं।

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख
	सर्व श्री	
1.	एन. पेरियासामी	16.12.2011 पूर्वाह्न
2.	के. वी. सुधाकर	16.12.2011 पूर्वाह्न
3.	बी. के. सिन्हा	27.12.2011 पूर्वाह्न
4.	श्रीमती ज्योतिका पेगू	14.12.2011 पूर्वाह्न
5.	एस. बलैया	26.12.2011 पूर्वाह्न

नरेंद्र सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 16 अप्रैल 2012

सं. ए-32011/6/2012-प्रशा.-1--सक्षम प्राधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहायक लेखा अधिकारी, श्री वीनिश चंद्रा को पदोन्नति पर लेखा अधिकारी (सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय) के पद पर दिनांक 02.04.2012 पूर्वाह्न से पे बैंड-2 9,300--34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4,600/- रुपए के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

2. श्री वीनिश चंद्रा दिनांक 02.04.2012 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। इस परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से बढ़ा सकते हैं।

पारिजात दीवान, उप निदेशक (प्रशासन)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 30th March 2012

No. A.22012/001/2012-PME(NAC)—The President is pleased to appoint Shri S. V. Pillai, Under Secretary of CSS (Retired), as Officer on Special Duty in PB-3 with Grade Pay of Rs. 7,600/- on the Personal Staff of Chairperson, National Advisory Council with effect from the forenoon of 1st April, 2012 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri S. V. Pillai is co-terminous with the tenure of and at the discretion of Chairperson, National Advisory Council.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A.38012/002/2011-PME(NAC)—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S. V. Pillai, Under Secretary of CSS cadre of Ministry of Home Affairs and presently working as Officer on Special Duty to Chairperson, NAC is retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2012.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A.22012/02/2012-PME—Consequent upon completion of tenure on Central Deputation, Smt. Vini Mahajan, IAS (PB:1987) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 30th March, 2012.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 9th April 2012

No. RS/42/9/2012/27 Perl.—Shri Gurvinder Singh Guleria, Security Officer has been relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. 9th April, 2012 (A.N.) and his services have been placed at the disposal of the Lok Sabha Secretariat for his appointment as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairperson, Committee on Empowerment of Women (Smt. Chandresh Kumari), on deputation and co-terminus basis.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 12th March 2012

No. A-19014/02/2012-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri Ishwer Singh, Assistant Director (OL) as Deputy Director (OL) of Central Secretariat Official Language Service in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in Cabinet Secretariat on ad hoc basis with effect from the forenoon of 06.03.2012, vide Department

of Official Language Office Order No. 5/16/2011-OL (Services) dated 9th February, 2012.

K. J. SIBICHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 4th April 2012

No. A-12011/2/2008-1—Consequent on his appointment as Principal Director (Central), Lucknow against a newly created post, Shri Sanjay Kumar Jha (IA & AS-1993) has relinquished the charge of the post of Director, Department of Space with effect from the afternoon of April, 04, 2012.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th April 2012

No. F.6 (2179)/2012-Adm.I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No. 07/4/2012-EO (SM.I) dated 30th March, 2012, Smt. Sindhushree Khullar, IAS (AGMUT-75) assumed charge as Secretary in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 2nd April, 2012.

G. RAJEEV, Under Secy.

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 12th April 2012

No. A-19011/39/12-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(ADG-Mumbai)/09-UIDAI dated 22 March, 2012 and Ministry of Finance (CBDT) Officer Order No. 62 of 2012 (F. No. A-29011/PF/90074/2012-Ad.VI dated 29 March 2012). Smt. Aparna Mittal (IRS-90), has assumed the charge of Assistant Director General (ADG) in the Regional Office of Unique Identification Authority of India in Mumbai w.e.f. 30.03.2012 (FN) in the Pay Band of Rs. 37,400 —67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 30th March 2012

No. A.12034/1/2011-Admn.IV(LA)—The President is pleased to appoint Shri Giri Ketharaj, Joint Director in Institute of Cost Accountants of India as Officer on Special Duty in the personal section of the Hon'ble Minister for Law & Justice (Shri Salman Khurshid) w.e.f. 13.03.2012 (FN) till 30.06.2012 in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-. Shri Giri Ketharaj will be

entitled to Deputation (Duty) Allowance as per instructions contained in Department of Personnel and Training's O.M. No. 2/23/2008-Estt.(Pay-II) dated 28.05.2009.

2. The appointment of Shri Giri Ketharaj is at the pleasure of Hon'ble Minister for Law and Justice (Shri Salman Khurshid) or for a period as mentioned above, whichever is earlier.

ASHA SOTA, Under Secy.

Kolkata, the 30th March 2012

No. G-19012(1)/2011-Adm.(Kol)—On attaining the age of superannuation Shri Pradip Kumar Saha, Deputy Legal Adviser in the Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs, Branch Secretariat, Kolkata stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of the 31st March, 2012.

S. S. SARKER, Addl. Govt. Advocate/In-Charge

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 10th April 2012

No. 13017/57/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur, Tripura and Sikkim the Central Government hereby transfers Shri Karma R. Bonpo, IAS (MT:10) from Manipur-Tripura cadre to Sikkim cadre under the extant policy relating to North-East.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

The 11th April 2012

No. 13017/49/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Madhya Pradesh and the Ministry of Home Affairs, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Pawan Kumar Sharma, IAS (MT:99) from Madhya Pradesh cadre to AGMUT cadre for appointment as Deputy Commissioner, Municipal Corporation of Delhi (MCD) for a period of five years with effect from the date of his reporting for duty.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd March 2012

No. 3/PB-II/2012—In pursuance of Ministry's OM No. Q/CAD/584/3/2012 dated 14th March 2012, the President is

pleased to appoint the following officer belonging to Grade II Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in Grade I of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of promotion
1	2	3	4
1.	Mahesh Kumar	15.03.68	02.03.2012
2.	Narender Kumar	15.11.66	02.03.2012
3.	Bhupendra Singh K.	24.06.66	02.03.2012
4.	I. M. Bhaskar	25.01.57	02.03.2012
5.	Arun Bahuguna	02.01.67	19.03.2012
6.	J. V. Seshadry Sekhar	28.09.66	02.03.2012
7.	Balraj	13.03.59	02.03.2012
8.	V. Jayashree Gopal	16.10.64	02.03.2012
9.	Ashok Kumar Khoba	07.08.63	02.03.2012
10.	Vipin Narula	12.03.63	02.03.2012
11.	Sangeeta Bhatt	21.01.69	02.03.2012
12.	Devinder Kumar	17.11.64	02.03.2012
13.	N. Muralidharan	11.07.60	07.03.2012
14.	Jeevan Dhiman	02.01.60	02.03.2012
15.	Dhirendra Kumar Sukla	02.07.62	02.03.2012
16.	Rajiv Kohli	25.04.64	02.03.2012
17.	S. Sundarachari	03.03.58	02.03.2012
18.	Rental Sessa Srinivas	08.02.72	02.03.2012
19.	Upendra Singh Negi	16.03.70	02.03.2012
20.	A. Anchana Kannan	02.06.65	02.03.2012
21.	Girija Shanker Joshi	15.02.72	02.03.2012
22.	Rominder Singh	04.10.74	02.03.2012
23.	Dalip Kumar Gambhir	21.06.65	02.03.2012
24.	Rekha Juyal	27.08.71	02.03.2012
25.	Anupama Deolal	01.04.74	02.03.2012
26.	S. Rajan	02.12.57	02.03.2012
27.	Mahender Prakash Baisla	15.12.69	02.03.2012
28.	Arun Yadav	28.10.68	02.03.2012
29.	P. K. Vinod Kumar	24.05.59	02.03.2012
30.	Prem Nath Khare	03.05.64	02.03.2012
31.	P. R. Pratap	13.02.61	02.03.2012

1	2	3	4
32.	Uppluri Sidh Gopal	08.05.63	02.03.2012
33.	T. P. Narayanan	14.08.67	02.03.2012
34.	Pawan Kumar	15.05.74	02.03.2012
35.	Naval Kishore Vats	10.01.58	02.03.2012
36.	R. K. Sehrawat	15.05.59	02.03.2012
37.	Seema Singh	08.05.72	02.03.2012
38.	Parmananada Sahoo	15.04.67	02.03.2012
39.	P. Sathyanarayanan	02.05.69	02.03.2012
40.	A. Ravi	01.06.60	02.03.2012
41.	Vinod Kumar Sagar	26.09.72	02.03.2012
42.	Biswarup Sarkar	05.01.63	02.03.2012
43.	Agnes Toppo	21.04.64	02.03.2012
44.	Vinod Kumar	10.04.70	02.03.2012

2. The other terms and conditions of the appointment will be the same as applicable to other officers of Grade-I of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service(B).

DEBABRATA PAUL, Admin. Officer (PB-II)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th March 2012

No. 4 of 2012 (F. No. A-32014/4/2009-Ad.IA)—The President is pleased to appoint Shri Maninder Jit Singh a regular Principal Private Secretary (PPS) of CSSS cadre of Ministry of Finance to the Grade of Sr. Principal Private Secretary (Sr. PPS) of CSSS with effect from 17th February, 2012 (F/N) against the Select List Year 2011 in the Department of Revenue.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 9th March 2012

No. 02 (F. No. A-32011/02/2001-Ad.VI)—In compliance of Hon'ble C.A.T., Jodhpur Bench, Jodhpur Order dated 03.05.2011 in O.A. No. 30/2011, Shri Ramawatar Verma (85072), presently Deputy Commissioner of Income Tax, is hereby placed in the Selection Grade (Non-Functional) in the Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/- (Pre-revised) w.e.f. 24.10.2000 till 21.04.2009.

ANAND UPADHYAY, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 27th March 2012

No. 19011/320/2012-Estt.—On the basis of results of the Combined Limited Departmental Examination, 2006, 2007 and 2008, the President is pleased to appoint Shri Subhash Chander, (Select List Year 2008/Rank No. 039), as Section Officer of CSS in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 19th March, 2012 and until further orders.

2. The appointment of Shri Subhash Chander to the Section Officers' Grade subject to the outcome of the following court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UoI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UoI & Ors. in CAT, New Delhi.

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

OFFICE OF THE CHIEF ADVISER COST

New Delhi, the 1st December 2011

No. PF-16(372)/CAB/93—In pursuance to Department of Expenditure's Office Order No. PFG(2341)-Ad-I, dated 25.10.2011, Miss Shashi Bala, Private Secretary (ad hoc) of the CSSS cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- stands retired voluntarily under the provision of Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 from Government Service with effect from the forenoon of 01st December, 2011.

2. Her name is struck off from the strength of this office as well as that of Department of Expenditure from that date.

RAJESH K. AGRAWAL, Asstt. Dir. (Cost)

New Delhi, the 30th March 2012

No. PFG(2389)/Ad.I—Shri S. Kanakambaran, Deputy Secretary of CSS cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st March 2012.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

New Delhi, the 2nd April 2012

No. 06/2012 (F. No. 6/2413/2006/PEN/HRD-I/125)—On attaining the age of superannuation Smt. Swaran Kanta, FTDO (CSS) in this Office stands retired from Government Service with effect from 31.03.2012 (AN).

G. A. REDDY, Dy. Dir. Genl. of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 3rd April 2012

No. A-19011/780/2011-E.I.—Consequent on the approval of the Appointments Committee of the Cabinet for repatriation to his cadre, Shri Pradeep Kumar Chaudhery, IAS (HY : 77) relinquished the charge of the post of Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the afternoon of 3rd April, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 10th April 2012

No. A-12023/2/2011-E.I.—The President is pleased to appoint Shri M. C. Goel, a regular Senior Translator of Official Language Service in the Department of Rural Development, as Assistant Director (Official Language) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry on ad hoc basis in the pay structure PB-3, (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- for a period of one year w.e.f. 03.04.2012 or till a regular Assistant Director (Official Language) becomes available for posting or until further orders whichever is the earliest.

2. The above appointment has been ordered purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

L. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 12th April 2012

No. I-34011/10/2005-RTI—In Partial modification of this Department's Notification No. F-23024/16/2005-E-III dated 06.10.2005, Shri G. R. Janghu, Asstt./ Director is designated as CPIO in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 for all the matters relating to ISU Section of Deptt. of Industrial Policy & Promotion.

The charge of ISU Section stands deleted from the name of Shri A. M. Balraj, Sr. DO as Central Public Information Officer.

S. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd April 2012

No. A-12011/1/2007-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint the following Officers (Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) as Principal Private Secretary [PPS] of CSSS cadre in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for the Select List Year 2010 :—

Sl. No.	Name
---------	------

1. Smt. Neelu Nangia
2. Shri K. P. Muralidharan
3. Shri K. Srinivasan
4. Shri K. S. N. Rao
5. Smt. Neerja Garg
6. Shri V. K. Suman

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

New Delhi, the 11th April 2012

No. A-19011/2/2012-Estt.(NPPA)—Consequent upon his promotion to the post of Statistical Investigator Grade-I of Subordinate Statistical Service (SSS) on ad hoc basis vide Ministry of Statistical & Programme Implementation Order No. 12016/5/2011-SSS dated 21.02.2012 and 13.03.2012 and in pursuance of Order No. A-20012/12/97-Admn.II dated 29.02.2012 of the same Ministry, Shri Ram Govind Ram has assumed charge of the post of Senior Investigator in the office of National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers with effect from 01.03.2012 (FN) on purely ad hoc basis in the Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- until further orders.

JAGDISH KUMAR, Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC
ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 3rd April 2012

No. A-19011/226/2012-Admn.—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training, Appointment Committee of the Cabinet's Order No. 13/5/2012-EO(SM.I) dated 30th March, 2012, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash Rawat, IAS (MP : 77) as Secretary, Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises w.e.f. the forenoon of 3rd April, 2012.

A. K. SINHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 9th April 2012

No. A. 12025/24/2010-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Sarita Jilowa to the post of Assistant Professor in the Speciality of Radio-Diagnosis in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service on probation with effect from the forenoon of 7th January, 2012 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 10th April 2012

No. A. 12025/53/2009-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Rishi Nayyar to the post of Assistant Professor in the Speciality of Urology in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service on probation with effect from the forenoon of 14th July, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/2/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Jainendra Kumar Arora to the post of Assistant Professor in the Speciality of Surgery in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service on probation, with effect from the forenoon of 17th February, 2012 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/28/2010-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Babu Lal Chaudhary to the post of Assistant Professor in the Speciality of Forensic Medicine in the Teaching Sub-cadre of Central Health Service, on

probation with effect from the forenoon of 25th January, 2012 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th March 2012

No. E-11016/01/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Ram Avtar Ram, Sr. Hindi Translator of Central Secretariat Official Language Services as Assistant Director (OL) in the Ministry of Health & Family Welfare in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- in PB-3+ Grade Pay of Rs. 5,400/- on ad-hoc basis with effect from 25.01.2012 or until further orders.

2. The promotion of abovementioned officer is purely on adhoc basis and will not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority etc.

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. A.19012/01/2012-E.I—The President is pleased to appoint Sh. Manoj Jhalani, IAS (MP : 87) as Joint Secretary in the Department of Health & Family Welfare for a period of five years with effect from the forenoon of 29th March, 2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 30th March 2012

No. 4-1/2011-Extn.—The President is pleased to appoint Ms. Punam Tiwari to the post of Regional Home Economist (RHE), G.C.S., Group 'A' Gazetted in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Directorate of Extension, New Delhi on direct recruitment basis, with effect from the forenoon of 06.03.2012.

R.S. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 14th March 2012

No. A. 19012/3/2012-EA.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. P-1/2012 dated 19.01.2012 issued under the File No. 13016/2/2011-IES, the President is pleased to appoint Shri S. Chandrasekar, a Non Functional Selection Grade level Officer of IES, on his promotion to Senior Administrative Grade of IES, to the post of Adviser, Directorate of Economics & Statistics, in the Department of Agriculture and Cooperation, in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 5th March 2012.

A.K. ARORA, Under Secy.

The 21st March 2012

No. A. 19012/7/2009-EA.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. P-2/2012 dated 07.03.2012 issued under the File No. 11016/1/2012-IES, the President is pleased to grant the following Officers at the level of Junior Administrative Grade, Non-functional Selection Grade of IES, in the PB-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Grant of NFSG	Date of assuming the charge of Post
1.	Shri Narain Singh	01.01.2012	01.01.2012
2.	Shri Ramvir Singh	19.01.2012	19.01.2012
3.	Shri Ganga Ram	19.01.2012	19.01.2012
4.	Shri M. Ravinder	19.01.2012	19.01.2012

A. K. ARORA, Under Secy.

The 26 March 2012

No. A. 19012/1/2010-EA.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. P-2/2012 dated 07.03.2012 issued under the File No. 11016/1/2012-IES, the President is pleased to appoint Smt. Harita Sabharwal, Joint Director, Commission for Agriculture Costs & Prices as Director (NFSG) of Indian Economic Service in the PB-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- with effect from 19th January, 2012(Forenoon).

A.K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 9th April 2012

No. A-12022/2/2007-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel and Training's Letter No. 4/9/2012-EO (SM-I) dated 23.03.2012, the President is pleased to appoint Shri Anoop Kumar Srivastava, IAS (AM:81), as Additional Secretary in the Ministry of Social Justice & Empowerment w.e.f. 02.04.2012 (Forenoon), until further orders.

UTTAM PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 9th April 2012

No. 1/11/2006-Estt.—Consequent upon the appointment of Shri Sudesh Kumar, PPS of CSSS to the Senior Principal Private Secretary grade of CSSS, his placement in the Select List Year 2011 and on his being posted to this Ministry by DoP&T vide Office Memorandum No. 2/4/2011-CS-II (A) dated 16th February, 2012, the President is pleased to appoint Shri Sudesh Kumar as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Minority Affairs w.e.f. 2nd April, 2012 (F/N)

in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 7,600/-.

MOHD. AFZAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY(DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION
TECHNOLOGY)STANDARDISATION, TESTING & QUALITY
CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 29th March 2012

No. 2(4)/2011-PA(TA)—The President is pleased to appoint Shri Remendra Nath Roychaudhury, Superintendent of STQC Directorate, Department of Electronics and Information Technology as Administrative Officer Grade II in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,600/- w.e.f. 26.03.2012 (FN).

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th April 2012

No. E(GP)2008/3/12—The President is pleased to appoint the undermentioned 4 Rajbhasha Adhikaris in Group 'B' as Senior Rajbhasha Adhikari in Group 'A'/Senior Scale on regular basis, with effect from 06.02.2012 :—

PANEL FOR 2007-2008

Shri Premchand Dang (ST)
(Working in South Eastern Railway)

PANEL FOR 2009-10

S/Shri

1. Parvinder Singh Rawat
(Working in Northern Railway)
2. Revati Lal Meena (ST) (Promoted Against
(Working in North Western ST Vacancy)
Railway)

PANEL FOR 2010-11

Shri Virender Singh (SC) (Promoted Against
(Working in Northern Railway) SC Vacancy)

V. K. GUPTA, Secretary
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

New Delhi, the 26th March 2012

No. A-38020/2/2012-E.II—Shri Mool Chand, Chief Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of Ministry of Road Transport and Highways expired on 07.03.2012.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 9th April 2012

No. 14/2012, (F.No. 12/19//2011-Adm.II.)—On attaining the age of superannuation, Shri Kamal Bose, Under Secretary, Ministry of Power, retired from Government Service on the afternoon of the 31st March, 2012.

P.P. BOSE, Under Secy.

New Delhi, the 11th April 2012

No. 7/2012. (F.No. A-38012/1/2012-Adm.I.)—Shri Pravesh Kumar, Assistant Director, Central Electricity Authority Officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from Service under the Government of India in the afternoon of 31st March, 2012 on attaining the age of superannuation.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th February 2012

No. 2/2012. (F. No. 3/4/2011-Estt.I.)—The President is pleased to appoint, on promotion, the following Junior Time Scale Officers (Assistant Director/Assistant Executive Engineer) of the Central Water Engineering (Gr. 'A') Service to the Senior Time Scale (Deputy Director/Executive Engineer) of the same Service, in the Pre-revised Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Revised Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-) on regular basis with

effect from the date of assumption of the charge as mentioned against each of the Officers :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as STS
	S/Shri	
1.	N. Periasamy	16.12.2011 (FN)
2.	K.V. Sudhakar	16.11.2011 (FN)
3.	B. K. Sinha	27.12.2011 (FN)
4.	Smt. Jyotika Pegu	14.12.2011 (FN)
5.	S. Balaiah	26.12.2011 (FN)

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 16th April 2012

No. A-32011/6/2012-Admn.I—The Competent Authority is pleased to appoint Shri Vinesh Chandra, Assistant Accounts Officer in Directorate of Advertising & Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting on promotion as Accounts Officer (GCS, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from the forenoon of 02.04.2012.

2. Shri Vinesh Chandra will be on probation for a period of two years from 02.04.2012. the period of probation is extendable at the discretion of the Competent Authority.

PARIJAT DIWAN, Dy. Director (Admn.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI